



REC Limited | आर ई सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) / (A Government of India Enterprise)
Regd. Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi - 110003
Corporate Office: REC World Headquarters, Plot No. 1-4,
Near IFFCO Chowk Metro Station, Sector-29, Gurugram - 122001 (Haryana)
Tel: +91 124 444 1300 | Website: www.recindia.com
CIN : L40101DL1969GOI005095 | GST No.: 06AAACR4512R3Z3

SEC-1/187(2)/2022/925

Dated: October 28, 2022

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फीरोज जीजीभोय टावर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
स्क्रिप कोड—RECLTD	स्क्रिप कोड—532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code—RECLTD	Scrip Code—532955

Sub: Submission of requisite documents for claiming exemption from TDS or deduction of tax at lower rates, on dividend to be paid to shareholders.

Dear Sir/Madam,

This is in furtherance of our earlier letter dated October 27, 2022 *inter-alia* intimating about declaration of interim dividend @ ₹5/- per equity share of ₹10/- each for the financial year 2022-23. The record date for the said interim dividend is **Wednesday, November 9, 2022**.

In this regard, it is pertinent to mention that dividend income is taxable in the hands of shareholders and the Company is required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of dividends, at the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961. Accordingly, it is brought to the notice of shareholders to submit scanned copy of PAN, Form 15G/15H & other requisite documents for the financial year 2022-23, unless already submitted, **on or before November 9, 2022**, through e-mail at einward.ris@kfintech.com / balajireddy.s@kfintech.com with copy marked to complianceofficer@recl.in.

No communication on the tax determination/deduction of tax at lower rates shall be entertained after **November 9, 2022**. It is further informed that in case tax on dividend is deducted at a higher rate in the absence of receipt of the requisite details/documents, refund of the excess tax paid may still be claimed at the time of filing income tax return. However, no claim shall lie against the Company for such taxes deducted. Further, shareholders will be able to see the credit of TDS in Form 26AS, which can be downloaded from their e-filing account at <https://incometaxindiaefiling.gov.in>.

यह आपकी जानकारी और प्रसार के लिए है। This is for your kind information and dissemination.

धन्यवाद,

भवदीय,

(J.S. Amitabh)

Executive Director & Company Secretary

Regional Offices: Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chennai, Dehradun, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Panchkula, Patna, Raipur, Ranchi, Shimla, Thiruvananthapuram & Vijaywada

State Offices : Vadodara

Training Centre : REC Institute of Power Management & Training (RECIPMT), Hyderabad